CIN: L51909UP1933PLC146675

Website: www.sirshadilal.com, E-mail: shares@ssel.trivenigroup.co Registered office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, Uttar Pradesh-201305

Phone: 0120-4748000 Fax: 0120-4243049

To, The Department of Corporate Affairs The BSE Limited 25Th Floor P J Towers. Dalal Street, Mumbai -400001, India Date: 01.03.2025

Sir Shadi Lal Enterprises Limited - Scrip Code- 532879 Subject: Notice of Postal Ballot & Remote E-Voting published in the Newspapers

Dear Sir,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, we enclose herewith copies of the relevant newspapers advertisement regarding Notice of Postal Ballot and remote e-voting and other related information published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on March 1, 2025.

You are requested to please take the above on record.

Thanking you.

Yours faithfully

For Sir, Shadi Lal Enterprises Limited

(Ajay Kumar Jain) Company Secretary

M No. -F5826

Rajasthan State Mines & Minerals Limited (A Government of Rajasthan Enterprise), 4, Meera Marg, Udaipur – 313001, Phone: (0294)2428763-67 2428744, 2428738, Fax: (0294)2428770, 2428769, E-mail: project.rammi@rajasthan.gov.in Detailed Notice Inviting e-Tender Date - 27/02/2025

NIT No. & Date e-Tender no. RSMM/CQ/PROJ, Solar Power/2024-25/496 Dated: 25.02.2025 JBN No. MML2425WLOB00219

Description of Work Comprehensive Operation & Maintenance (O&M) of the solar powe project: 5 MW at Gajner, Distt. Bikaner in state of Rajasthan , EMD in R: 16 Lac, Cost oftender document: Rs. 4720/- bu Cash/DD in favour of RSMML Payable at Udaipur, Processing Fee: Rs. 2500/- by DD only in favour of MD, ISL Payble at Jaipur, Period of downloading of tender from 25.02.2025 to 25.03.2025, Last date of submission: 25.03.2025 till 3.00 PM.

Other terms & conditions have been given in detailed tender for which please visit us at our websit www.rsmm.com or www.sppp.rajasthan.gov.in or eproc.rajasthan.gov.in or Sr. Manager (Contract on above address. Dy. General Manager (P&A) Raj.Samwad/C/24/12404

Richfield Financial Services Ltd

CIN: L65999WB1992PLC055224 2B, GRANT LANE, 2ND FLOOR, KOLKATA, WB-700012 EMAIL: rfsl.nbfc@gmail.com Website: www.rfsl.co.in. NOTICE OF POSTAL BALLOT E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing obligation and Disclosure requirement) Regulation, 2015 (the SEBI Listing Regulation) read with relevant Circulars issued by MCA in view of COVID-19 Pandemic, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated 24th February 2025 on 27th February 2025 only through electronic mode to all those members of the Company whose email address are registered with the Company or with the Depositories as on 21st February, 2025 (Cut-off date). The requirement for sending a physical copy of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with MCA circulars.

Members are hereby informed that:

1 The Special business for approving the items given in the postal ballot notice are transacted through postal ballot via remote e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

2 The e-voting commences on 28.02.2025 (Friday) at 9.00 am (IST) and ends on 29.03.2025 (Saturday) at 5.00 pm (IST) and thereafter, the remote e-voting shall be blocked and voting shall not be allowed beyond the said time.

3 Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date, i.e., 21st February 2025 are entitled to cast their votes.

4 The Board has appointed M/s. Lakshmmi Subramanian & Associates, Practising

Company Secretaries as Scrutinizer for the Postal Ballot. 5 Members who have not received the postal Ballot Notice may write to rfsl.nbfc@gmail.com and obtain the same.

6 If you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.rfsl.co.in under help section or write an email to evoting@nsdl.com

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may send ar email to evoting@nsdl.com or call on 022 - 4886 7000.

In case of any queries, Members may write to the RTA at ashoksen@nichetechpl.com The Postal Ballot notice is available on the Company website www.rfsl.co.in., BSE website www.bseindia.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/ Results of Postal ballot shall be declared on or before Monday, 31st March, 2025 and shall be communicated to BSE Limited and shall be also placed on the Company website at

> For Richfield Financial Services Limited Mr. Vadasseril Chacko Georgekutty Managing Director DIN: 09194854

DATE: 28-02-2025

PLACE: Ernakulam

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED (Corporate Identity No. L51909UP1933PLC146675)

Registered Office: A-44 Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida-201 305, Uttar Pradesh Corporate Office: 8th Floor, Express Trade Towers, Plot No.15-16, Sector 16A, Noida- 201 301, Uttar Pradesh

Email: shares@ssel.trivenigroup.com; Website: www.sirshadilal.com; Ph:0120-4308000

NOTICE OF POSTAL BALLOT Members of the Company are hereby informed that pursuant to provisions of Section 108,

110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time (the "Rules") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 9/2024 dated September 19, 2024 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), Sir Shadi Lal Enterprises Limited (the "Company") has or February 28, 2025 completed dispatch of Postal Ballot Notice dated January 31, 2025 electronically for seeking approval of the Company's Members for entering into material related party transactions with Triveni Engineering & Industries Ltd., Holding Company during the FY 2025-26 by Ordinary Resolution, to those members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Securities (India) Limited (CDSL) and whose e-mail addresses are available with the Company RTA /Depositories as on Friday, February 21, 2025 ("Cut-Off Date")

The voting rights of the Members/Beneficial Owners shall be in proportion to their shareholding of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Ltd. (NSDL) for providing remote e-Voting facilities to the Members, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner. Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial owners as on the Cut-off Date will only be considered eligible for the purpose of remote e-voting. A person who becomes a member after the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.sirshadilal.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com Please note that there will be no dispatch of Physical copies of Notices or Postal Ballot

forms to the members of the Company. Members desirous of exercising their votes through the remote e-voting process are requested to carefully read the instructions indicated in this notice and record their Assent (FOR) Dissent (AGAINST) only through remote e-voting system.

Instructions for e-voting:

The remote e-voting shall commence on 1st March, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and shall end on 30th March, 2025 at 5.00 P.M. (IST). During this period, the members of the Company holding shares in physical or electronic forms on the Cut-Off date may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting

Members who not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their respective depository participant in case the shares are held in electronic form and with the Company's registrar Alankit Assignments Limited as detailed in notes to the Postal Ballot notice.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanner copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to shares@ssel.trivenigroup.com In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID
- statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to shares@ssel.trivenigroup.com Alternatively, shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com fo

procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents. Manner of permanently registering / updating email addresses is as below:

 Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company are requested to register / update their e-mail address b submitting Form ISR-1 along with requisite supporting documents to RTA of the Companat M/s Alankit Assignments Limited, Unit: Sir Shadi Lal Enterprises Limited, Alankit House 2E/21, Jhandewalan Extension, New Delhi 110-055.

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. After due verification, NSDL (e-Voting Service Provider) will forward their logic credentials to their registered email address.

In case of any queries, member may write to shares@ssel.trivenigroup.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Suresh Gupta (CP No. 5204, N No. F5660) Proprietor of M/s Suresh Gupta & Associates, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and

will be announced by the Chairman of the Company or in his absence by Company Secretary on or before 31st March, 2025. The results will be made available on Company's website at www.sirshadilal.com , the website of the Stock exchange, BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com In case you have any questions about remote e-voting, please see the Frequently Asked

Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting User Manual for Shareholders, both of which are available in the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager at www.evoting@nsdl.com or call on 022-48867000.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Postal Ballot Notice and in particular the manner of casting vote through remote e-voting.

> For Sir Shadi Lal Enterprises Ltd. Ajay Kumar Jain Company Secretary

Noida Power Company Limited, Greater Noida

Electric Sub Station, Knowledge Park-IV, Greater Noida-201310

TENDER NOTICE Date: 01.03.2025 Sealed tender under two Bid System (Commercial & Technical) are invited for following job from all interested bidders

NIT No. Tender Description		EMD (Rs. in Lakhs)	Start and Due Date & Time of Submission	
NPCL/FY24-25/ Junction	Annual Rate Contract for the Supply of	2.5	01.03.2025 & 21.03.2025	
Box 3 Ph SMC /038	Junction Box 3 Ph SMC		(up to 15:00 hours)	

Please visit our website www.noidapower.com-->Procurement-->Tenders DGM (CMM)

(A Government Company)
Regd. Office: KOTHAGUDEM - 507101, Telangana. **E-PROCUREMENT TENDER NOTICE** Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-pr For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://scclmimes.com

THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED

NIT/Enquiry No. - Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s) EST2400145 - Procurement of Man hole covers for HP Heaters at STPP, Jaipur, Mancherial, Telangana 15.03.2025 - 12.01 PM.

NIT/Enquiry No. - Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and time. CRP/CVL/SRP/TN-92/2024-25, Dt.24.02.2025- Construction of Computer Lab Building at SC Polytechnic College in Stirampur Area, Mancherial Dist., Telangana State - Rs. 67,32,856/- - 11.03.2025 - 04.30 PM. CRP/CVL/MNG/TN-93/2024-25, dt.25.02.2025 - Laying of Cement Concrete Pavement, RCC drains and Construction of 50 hours maintenance platform at New Base, Workshop at PKOC-II extension project Manuguru Area, Bhadradri Kothagudem Dist., Telangana State-Rs. 4,84,54,939(--12.03.2025-04.30 PM. CRP/CVL/KGM/TN-94/2024-25, dt.26.02.2025 - Construction of RCC drain along main road from BP Petrol bunk to Nursing college, Ambedkar Nagar colony, Kistaram village, Sathupalli, Khammam District, Telangana state - Rs. 75,08,894/- - 13.03,2025 - 04.30 P.M.

RG-III/CVL/ET-83/24-25 - Repair to material stocking shed at CHP OCP-I, RG-III Area. Godavanikhani. Dy GM (Civil)/RG-III Peddapalli (Dist), Telangana (State) - 11.03.2025 - 04.30 PM. PR/2025/ADVTISTPP/CVL/RG-III/18 DIPR R.O.No.: 1061-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2024-25

इंडियन बेंक 🐔 Indian Bank

SalesMira Bhayandar Road Mira road Dist. Thane-401107

Stressed Asset Management Large Branch, Indian Bank, 73, 7th floor, Mittal Chamber, Nariman Point, Mumbai 21

Mail Id: armbmumbai@indianbank.co.in Sale notice for sale of immovable properties | APPENDIX- IV-A" [See proviso to rule 8 (6)]

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank, Ajmer branch Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is "on 12.03.2025 for recovery of Rs.23293286/-(Rupees Two crore thirty two lakh ninty three thousand two hundred eighty six only) as on 25.02.2025 and further interest and cost from 26.02.2025 due to the Indian Bank, SAM Large Branch, Secured Creditor, from (M/s PAN Media Solutions.)

2.Mrs.Prabha Bhargava:- HNO.AMC149/202(Old) &New No217/Adjoining Sangam Vihar Colony, Rabariay Mohalla Mayo Link Road Ajmer Rajasthan-30050 3.Mr. Sanjay Bhargava:- HNO.AMC149/202(Old)&NewNo217/Adjoining Sangam Vihar Colony Rabariay Mohalla Mayo Link Road Ajmer Rajasthan-30050

1.M/s PAN Media Solutions: - 202, Mahesh Industrial Estate, Opp to Silver Park Next to Vijay

4.Mr. Sanjay Bhargava: - Pacific A Flat No.102 Lodha Aqua, Mahajan Wadi Western Express Highway Opp Thakur mall Mira Bhayander, Mira Road Thane Maharastra-401107 5.Mrs.Prabha Bhargava: - Pacific A Flat No. 102 Logha Aqua, Mahajan Wadi Western Express Highway Opp Thakur mall Mira Bhayander, Mira Road Thane Maharastra-401107 The specific details of the property intended to be brought to sale through e-auction mode are

Detailed description of the Property:- Plot no AMC 149/20(OLD) & 217/30(NEW) Adjoining Sangam Vihar Colony Rabariay Mohalla ,Mayo Link Road Ajmer Rajasthan in the name of Shri Sanjay Bhargava &Smt Prabha Bhargava admeasuring 388.31 sq. Yards Property ID No IDIB384085385 | Bid incremental amount: - 50,000/- (Fifty thousand only)

Reserve Price:-78.06 Lakh . EMD Amount Rs.7.80 lakh Date and time of e-auction at the platform of e-auction Service Provider https://www.ebkray.in-12:03:2025 and From 11:00 AM to 04:00 PM Date of inspection: - 04.03.2025 From 01.00PM TO 04.00PM

Bidders are advised to visit the website (https://www.ebkray.in) of our e auction service provider PSB Alliance Pvt. Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call 8291220220. For Registration status and for EMD status please email to support.ebkray@psballiance.com.

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://www.ebkray.in and for clarifications related to this portal, please contact PSB Alliance Pvt. Ltd. Contact No.8291220220. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the

property in the website with https://www.ebkray.in Authorised Officer:- Manisha

25, Place: Mumbai		Contact No:9899600207		
te www.indianbank.in	E-auction website	Document (Sale Notice Image)		

MPS LIMITED

Bank Websit

CIN: L22122TN1970PLC005795 Registered Office: RR Towers IV, 16/17, Super A, Thiru-vi-ka, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032, Tamil Nadu Corporate Office: A-1, 4th Floor, Tower-A, Windsor IT Park, Sector 125, Noida-201303, UP, Tel: +91-120-4599750,

Email: investors@mpslimited.com, Website: www.mpslimited.com POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules"), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meeting, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI Listing Regulations") and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 09/2024 dated 19 September 2024 and other relevant circulars/notifications, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s)thereof, for the time being in force), the approval of the shareholders of MPS Limited (the "Company") is sought for the following special/ordinary resolutions by way of remote e-voting process:

S.No. Description of Resolutions (Special/Ordinary)

Resolution

- To Consider and Approve the Proposal for Capital Raising in one or more tranches by way of Issuance of Equity Shares and/or Equity Linked Securities - Special Resolution.
- To Consider and Approve the Appointment of Ms. Divya Verma (DIN: 03149607) as an Independent Non-Executive Director of the Company - Special Resolution.
- To Consider and Approve the Appointment of Ms. Jayantika Dave (DIN:01585850) as a Non-Executive Director of the Company -Ordinary Resolution.
- To Consider and Approve the Change in Terms and Conditions of the Re-Appointment and Remuneration payable to Mr. Rahul Arora, as the Chief Executive Officer and Managing Director of the company - Special

Pursuant to MCA Circulars, the Company has sent electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement by e-mail, on Friday, 28 February 2025, to those members whose e-mail addresses are registered with Cameo Corporate Services Limited ("Cameo"), the Company's Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participants as on the cut-off date i.e. Thursday, 27 February 2025. The communication of the assent or dissent of the members would only take place through remote e-voting. The notice of the Postal Ballot along with the Remote e-Voting instructions is also available on the Company's Website (www.mpslimited.com). CDSL's website (www.cdslindia.com) and also on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com)

The voting rights of the shareholders shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the cut-off date. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

The company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') to provide remote e-voting facility. The date and time of commencement of remote e-voting is w.e.f. Sunday, 02 March 2025, 09:00 AM (IST) and shareholders are requested to record their assent or dissent on or before Monday, 31 March 2025, 05:00 PM (IST). The remote e-voting module will be disabled by CDSL immediately thereafter and members will not be allowed to cast their votes beyond the said date and time.

For shareholders holding shares in physical form, whose email ID/Mobile No. is not registered/updated with the Company, are requested to register/update their email ID with Cameo. The Requests can be sent via email to (nagaraj@cameoindia.com) by sending Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) and for Shareholders holding shares in electronic mode can get their email ID registered/updated by contacting their respective Depository Participants where they maintain their Demat Accounts.

The Board of Directors of the Company had appointed Mr. R. Sridharan of M/s R. Sridharan & Associates, Company Secretaries (CP. No. 3239) as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the Company at www.mpslimited.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com and intimated to BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of the India Limited ('NSE'), where the equity shares of the Company are listed, on or before Wednesday, 02 April 2025. For any queries or grievances on Postal Ballot, members may please contact

Mr. Nagaraj, Manager, Cameo Corporate Services Limited or send an email to nagaraj@cameoindia.com or call at 044-28460390. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll-free no. 1800 22 55 33.

Place: Noida, Uttar Pradesh

Date: 28 February, 2025

For MPS Limited Raman Sapra Company Secretary M.No.: F9233 NOTICE

NOTICE is hereby given that the Folio

No 76493715 Certificate No 1377781 281955, 479035, 392402, 76837 Distinctive No. 1398675871 1398675945, 145526291-145526315, 622406269-622406318, 582328476-582328525, 3700092- 3700116 Equity Shares Nos. 225 Larsen & Toubro Limited standing in the name (s) of Somopriva Sett has/have been lost or mislaid and the undersigned has / have applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(s).

Somopriya Sett Name(s) of Shareholder(s) Date: 01.03.25

Date: 27.02.2025

KMF Karnataka Co-Operative Milk Producers' Federation Limited

Kmf Complex, Dr. M.H. Marigowda Road, Bangalore - 560 029 Phone :080- 26096832/910/922 Fax : 080-25536105 E-mail: purchase@kmf.coop

TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER FOR PROVIDING TRANSPORTATION SERVICE THROUGH KPPP PORTAL

INVITATION FOR TENDERS (IFT)

IFT No.: KMF/PUR/TENDER-733:2024-25

'IMPORTANT'

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any agreements with advertisers

or otherwise acting on ar

advertisement in

manner whatsoever.

1) Karnataka Milk Federation, Bangalore invites tenders from Eligible transport contractors for Providing Vehicles for transportation of Whole milk powder from Mother Dairy-Yelahanka a unit of KMF to different destinations of GOI ARMY Supply Depots.

SI. No.	DETAILS	CAPACITY OF THE VEHICLES		
1	Transportation of WHOLE MILK POWDER(WMP) in 10 kg TINs through Open Truck from Mother dairy - KMF to Different destinations of GOI ASDs (Army Supply Depot)in India on Biennial Rate Contract Basis.	7.5MT,9MT,12MT, 16MT, 18MT and 21MT (RATES TO BE QUOTED PER TRIP BASIS)		

- 2) Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.
- 3) Tender documents may be downloaded from KPPP PORTAL website https://karnataka.public.procurement.portal.gov.in/.
- Tenderer should pay the Earnest Money Deposit (EMD), and tender processing fee, which shall be paid online through KPP Portal. Other details can be seen in the tender documents.

Date of commencement of tender download: 27.02.2025. Pre bid meeting date: 10.03.2025 at 11.00 am. Last date for submission of tender: on or before 28.03.2025 at 17.00 hrs. Date of opening of technical tender: on 29.03.2025 at 17.05 hrs. Date of opening of Commercial bid - After Technical Bids evaluation. For Karnataka Co-Opp. Milk Federation Ltd.

Sd/- Director (Purchase)



MULTIBASE INDIA LIMITED Registered Office: 74/5-6, Daman Industrial Estate, Kadaiya,

Nani Daman-396210 (UT); Tel.: +91 260 6614 400 Fax: +91 260 2221 578 Email: compliance.officer@multibaseindia.com; Website: www.multibaseindia.com
 CIN: L01122DD1991PLC002959

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING FACILITY TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that the Multibase India Limited ("Company") is seeking approval from its Members through the process of Postal Ballot by providing remote e voting facility to its Members to cast their vote on the resolutions as set out in the Notice of the Postal Ballot dated February 28, 2025. The General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and Circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as ("Circulars") permits the Company to seek the approval from the Members by way of e-voting. In compliance with Section 110 and 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read

with Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and the Circulars, the Company has sent the Notice of the Postal Ballot on Friday, February 28, 2025, through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent ('RTA') and Depositories as on Friday, February 21, 2025 ('Cut-off Date'). Any recipient of the postal ballot notice who was not a Member of the Company as on the Cut-Off Date should treat this Postal Ballot notice

The Members whose E-mail IDs are not registered / updated with the Company/ RTA can avail the soft copy of the Notice of Postal Ballot by sending a request through e mail to the Company at compliance.officer@multibaseindia.com or to NSDL at evoting@nsdl.co.in. Alternatively, the Notice and the Explanatory Statement of the Postal Ballot is available on the website of the Company at www.multibaseindia.com and on the website of the Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting for the businesses set forth in the Notice of Postal Ballot and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating the voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the Postal Ballot. In compliance with the MCA Circulars, the communication of assent/ dissent of the Members would only take place through remote e-voting system and physical Postal Ballot form and pre-paid envelope will not be sent to the Members for this Postal

The details pursuant to provisions of the Act and the Rules framed thereunder are given below:

- a. All business items as set out in the Notice of Postal Ballot may only be transacted by electronic means. b. Date and time of commencement of remote e-Voting facility - Saturday, March
- c. Date and time of end of remote e-voting facility Sunday, March 30, 2025 at 5.00
- p.m. (IST) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. d. E-voting shall not be allowed beyond Sunday, March 30, 2025 at 5.00 p.m. (IST) e. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be
- f. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paidup equity share capital of the Company as on Friday, February 21, 2025 ('cut-off

allowed to change it subsequently;

- g. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting
- h. The detailed instructions for casting the vote through remote e-voting on the resolutions set out in the Notice of the Postal Ballot is provided in the said notice. Members are requested to carefully go through the same. Members who need assistance regarding e-voting facility can request to
- Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL National Securities Depository Limited Add.: Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 E-mail ID: evoting@nsdl.co.in Contact on .: 022 - 48867000 / 022 - 24997000 or call on toll free no .: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

74/5-6, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Nani Daman-396210. The Board of Directors have appointed Mr. Rishit Shah (M. No. F9522, COP: 26870), Proprietor of Rishit Shah & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting voting process in fair and transparent manner.

Ms. Parmy Kamani, Company Secretary and Compliance Officer of the Company

E-mail ID: compliance.officer@multibaseindia.com Registered office address:

Members are requested to register/update their e-mail addresses with their DPs in case shares held in dematerialised form and to Company/ RTA in case shares held in physical form for receiving all the communications by e-mail from the Company in future. By Order of Board of Directors For Multibase India Limited

Date: March 01, 2025 Place: Mumbai

financialexp.epapr.in

Company Secretary & Compliance Officer

MAAN

Maan Aluminium Limited

(CIN No.: L300070DL2003PLC214485) Regd. Office: 4/5, First Floor, Asaf Ali Road, New Delhi 110002 Tel. 011-40081800 Website: www.maanaluminium.com Email: info@maanaluminium.in NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 201: (the "Act") and other applicable provisions, if any, of the Act and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") as amended from time to time read with various MCA circulars issued in this regard and Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and pursuant to other applicable laws and regulations, the approval of members of the Company is being sought for the following resolutions by way of postal ballot through remote e-voting process: Sl. No. Description of Resolutions

To re-appoint Mr. Ravinder Nath Jain (DIN: 00801000) as Chairman and Managing Director and fix his remuneration

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Postal Ballo Notice have been sent on Friday, February 28, 2025 to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) as on Friday, February 21, 2025 i.e. the cut-off date. The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.maanaluminium.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) ("MIIPL")

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, shareholders can vote only through the remote e-voting process. Shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial Owners as on Friday, February 21, 2025 will be eligible for e-voting.

The Company has provided e-voting facility to all its members on the platform of MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) ("MIIPL"). The e-voting facility shall commence on Saturday, 01" March, 2025 at 09.00 A.M. IST and ends on Sunday, 30th March, 2025 at 05.00 P.M. IST. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

The members of the Company holding equity shares of the Company in Demat and Physical Form and who have not registered their email address with the Company or Depositories may temporarily get their e-mail addresses registered with MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) ("MIPL") by clicking the link at www.linkintime.co.in and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as DPID, Client ID/Folio No./ PAN, mobile number and e-mail id. In case of any query, a member may send an e-mail to RTA at kalpana.singh@in.mpms.mufg.com. It is clarified that for permanent registration of email address, shareholders are requested to register their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants by following the procedure prescribed by the Depository Participant. The Members holding equity shares in the physical form are requested to submit KYC form mentioning the Folio No., Name, Mobile No., email id along with scanned copy of the Share Certificate (front and back) and self-attested copy of PAN card to RTA at kalpana.singh@in.mpms.mufg.com.

The instructions on the process of e-voting, including the manner in which members who are holding shares in physical or demat form can cast their vote through e-voting, are provided in the Postal Ballot Notice.

The result of Postal Ballot through e-voting will be declared by the Chairman of the Company on or before Tuesday. April 01, 2025 and will also be displayed on the Company's website at www.maanaluminium.com besides being communicated to the Stock Exchanges and Depository. In case of any queries/issues, you may refer to Frequently Asked Questions

("FAQs") and InstaVote e-Voting manual available at

Place: New Delhi

Date: 01.03.2025

https://instavote.linkintime.co.in, under help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 - 4918 6000 or write an email to Mr. Sandeep Kumar Agarwal, Company Secretary of the Company by sending email at cs@maanaluminium.in For Maan Aluminium Limited

Rayinder Nath Jain

Chairman and Managing

bilt

BALLARPUR INDUSTRIES LIMITED CIN: L21010MH1945PLC010337

Registered Office: 602, Boston House, Suren Road Andheri East, Mumbai, Maharashtra - 400093 E-mail: sectdiv@biltpaper.in; Telephone: +91 (022) 4000 2600 Website: www.biltpaper.in

Postal Ballot Notice and E-Voting Information [Pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 & Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Notice is hereby given that the resolution set out below is proposed to be passed by the members

of Ballarpur Industries Limited ("the Company") by means of Postal Ballot, only by way of

remote e-voting process ("e-voting"), pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 ("the Rules") and other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 and read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated 5th May 2022, 11/2022 dated 28th December 2022, 09/2023 dated 25th September 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has on Friday, February 28, 2025, sent to the Members, who have registered their E-mail IDs with in the beneficial ownership data/records of National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited ("Depositories") and the record of the RCMC Share Registry Pvt. Ltd, Registrar and Share Transfer Agent, the notice of postal ballot dated February 13, 2025, together with an explanatory statement pursuant to section 102 of the Act.

The Board has, pursuant to Rule 22(5) of the Rules, appointed M/s Viral Sanghavi & Associates, Practicing Company Secretaries, (Membership No. FCS 10331, COP No. 9035) as the Scrutinizer for conducting the voting process through Postal Ballot / E-Voting in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his Report, in writing, upon completion of scrutiny of E-Voting data provided by NSDL, in a fair and transparent manner. The result on the resolutions proposed to bepassed through Postal Ballot / E-Voting shall be announced within 2 working days from the closure of e-voting and will be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company for a period of 3 (Three) days and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited ("Stock Exchanges") where the equity shares of the Company are listed. The results of the Postal Ballot / E-Voting will also be displayed on the Company's website at www.biltpaper.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The last date of the E-Voting shall be the date on which the Resolution shall be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority.

Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has availed the services of RCMC Share Registry Pvt. Ltd, Registrar and Share Transfer Agent of the Company for facilitating e-voting to enable the shareholders to cast their vote electronically. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the notes to the postal ballot notice.

To approve Issue of 0.01% Unlisted Non-Cumulative Redeemable Preference Shares on private placement basis

Increase in Borrowing Limit u/s 180 (1) (c) of the Companies Act, 2013 Increase the limit for selling, leasing or disposing of Assets and Creating Chargel

To approve material related party transactions with Mr. Hardik Patel (Whole Time To approve material related party transactions with Finquest Financial Solutions Private

Security over Company Assets in terms of Section 179 and 180(1)(a) of the Companies

Limited (Holding Company) The facility to exercise vote through remote e-voting will be available during the following period

Commencement of e-voting: From 09.00 a.m. (IST) on Saturday, March 1, 2025 Conclusion of e-voting: At 5:00 p.m. (IST) on Sunday, March 30, 2025.

Cut Off date: Friday, February 21, 2025

The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the A person who is not a member as on the 'cut-off date' i.e. Friday, February 21, 2025 should treat the Notice of postal ballot for information purpose only. The copy of the postal ballot notice

In line with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic

mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories.

is available on Company's website at www.biltpaper.in. Members who do not receive the postal ballot notice may download it from the above-mentioned website. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses

with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at sectdiv@biltpaper.in or with the Registrar and Transfer Agent of the Company, i.e., RCMC Share Registry Pvt. Ltd ("Registrar" or "RTA") at rdua@rcmcdelhi.com along with the copy of the signed request letter in Form ISR-1 mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of PAN card and self-attested copy of Driving License, Election Identity Card, Passport (as the case may be). Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depositories Participants. In case of any queries difficulties in registering the e-mail addresses, Members may write to sectdiv@biltpaper.in.

By Order of the Board of Directors For Ballarpur Industries Limited Punit A. Bajaj Company Secretary

Place: Mumbai Date: February 28, 2025

FCS - 13366

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

New Delhi

5d/-

Parmy Kamani

M. No. ACS 27788

♦FINANCIAL EXPRESS

or 16-digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account

The results of the voting conducted by the Postal Ballot along with the Scrutinizer's report

Date: 28.02.2025 Place : Noida (U.P.)

IndiaShelter **Home Loans**

इंडिया शेल्टर फाइबैंस कार्पोरेशन लिभिटेड पंजी. कार्यालय :- प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122 002, शाखा कार्यालय : बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **इंडिया शेल्टर फाइजैंस ऐंड कॉर्पोरेशज लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभृति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक

मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी / प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति / यों का सांकेतिक कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति / यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति / यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार **इंडिया ग्रेल्टर फाइजैंस कार्पोटिशज लिमिटेड** की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी मांग सचना की तिथि, मांग सचना कि

एवं ऋण खाता संख्या	अंश एवं खंड) का वर्णन	की तिथि तक बकाया राशि	तिथि
श्री/श्रीमती साधना वर्मा पत्नी श्री श्रवण कुमार वर्मा पता: प्लॉट नंबर 14, खसरा नंबर 156 मिन, स्थित: ग्राम गोयला, परगना माहोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 226001 अन्य पता: प्लॉट नंबर 14, गाटा नंबर 156 मिन, ग्राम गोयला, परगना माहोना, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ श्री/श्रीमती श्रवण कुमार वर्मा पुत्र महावीर प्रसाद	नंबर 14, क्षेत्रफल परिमाप 1000 वर्ग फीट, खसरा नंबर 156 मिन, स्थित : ग्राम गोयला, परगना माहा. ना, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ, चौहद्दी— पूरब : खाली प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : 22 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : पवन मिश्रा का निर्माणाधीन	रू. 1,90,114/- (रूपए एक लाख नब्बे हजार एक सौ चौदह मात्र) 10–09–2024 तक बकाया +	26-02-202 भौतिक कब्जा
21/ 210Kii 244 43010 4011 427 0181410 20114	5	NI	

वर्मा पता : प्लॉट नंबर 14, खसरा नंबर 156 मिन, **स्थित :** ग्राम गोयला, परगना माहोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 226001 **अन्य पता** केएच नंबर 63, मल्हौर रोड, अशरफ विहार कालोनी, चिन्हट औद्योगिक क्षेत्र, चिन्हट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 226019 **अन्य पता :** प्लॉट नंबर 14, गाटा नंबर 156 मिन, स्थित : ग्राम गोयला, परगना माहोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 226001 श्री/श्रीमती पूर्णिमा वर्मा पता : प्लॉट नंबर 14, खसरा नंबर 156 मिन, स्थित : ग्राम गोयला, परगना माहोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 226001 अन्य पता : प्लॉट नंबर 14, गाटा नंबर 156 मिन, स्थित ग्राम गोयला, परगना माहोना, तहसील बक्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश— 226001 ऋण खाता सं. HL11SVLONS000005111400/AP-10261531

स्थान : लखनऊ, तिथि : 01-03-2025 वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिभिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

कार्यालय सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक 1073/ज०क०/न०नि०सहा०/2024-25

दिनांक 28.02/2025

Expression of Interest

एतद्द्वारा ऐसी इच्छुक फर्मों/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जलकल अनुभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत के अलग-अलग स्थलों पर पूर्व में स्थापित 34 नग वाटर कूलरों की रिपेयरिंग/एकल समय सर्विसिंग एवं तत्पश्चात वाटर कूलरों की 03 वर्ष हेतु ${f AMC}$ (वार्षिक अनुरक्षण) का कार्य कराये जाने हेतु यूनिट दर प्राप्त की जानी है। इस कार्य हेतु Expression of Interest वेबसाइट <u>etender.up.nic.in</u> पर ऑनलाईन के माध्यम से आमन्त्रित किये जाते है। ऑफरदाताओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा। ऑफरदाता अपना ऑफर एवं शर्तों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र वेबसाइट etender.up.nic.in पर दिनांक 01-03-2025 से दिनांक 11-03-2025 सायं 04:00 बजे तक अपलोड कर सकते है एवं प्राप्त ऑफर दिनांक 11-03-2025 को सायं 04:30 बजे खोला जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिये अधिशासी अभियन्ता (जल)

विस्तृत शर्ते नगर निगम सहारनपुर की वेबसाइट www.saharanpurnagarnigam.com एवं वेबसाइट

etender.up.nic.in पर पर देखी जा सकती है।

खातेदारों / गारन्टरों के नाम

(मोबाइल 7668628550) से सम्पर्क किया जा सकता है।

महाप्रबन्धक (जल)

सहारनपुर नगर निगम।

सार बकाया राशि

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस रिटेल एसेट्स सेक्टर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ०प्र0– 226010

रजिस्टर्ड ऑफिस: "त्रिशूल"—तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, **ऐक्सिस बैंक लि0** के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। निम्न वर्णित उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में असफल रहे है, अतः निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा निम्न सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं। मांग नोटिस के अनु

बंधक / प्रभारित सम्पत्तियों

	खातदारा / गारन्टरा क नाम एवं पता	का विवरण	मांग सूचना की तिथि
	34 401	का विवरण	कब्जे की तिथि
53	1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री श्री पाल सिंह, पता— लेबर मण्डी, इमिलया बाग, संडिला, हरदोल—221204, 2. श्री श्रीपाल सिंह पुत्र श्री बच्चू सिंह, पता—थंगाँव, तेरिया, संडिला, निकट—प्राइमरी बैंक एवं शिव मन्दिर, हरदोई— 241204	भूमि / सम्पत्ति स्थित मकान नं0 17 / 84, मोहल्ला मंडई नगर पालिका के अन्तर्गत, संडिला, हरदोई, सम्पत्ति श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नाम, चौहद्दी —पूर्व—मुनेश्वर दत्त तिवारी का मकान, पश्चिम— रास्ता, उत्तर—श्रीमती ऊषा तिवारी का मकान, दक्षिण—श्रीमती रिश्म बाला अग्निहोत्री की दुकान	रू० 8,50,083.01 रू० 29,990.00 दि. 24.05.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 03.06.2024 25.02.2025
	1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल, पता—वार्ड नं0 3, राजेश मैथिल की गली, पोस्ट—पुरनपुर, पुरनपुर देहात लाइन पार, पुरनपुर खास (रूरल), पुरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, 262122, 2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामकिशन, पता—1 वार्ड नं0 3, राजेश मैथिल की गली,	राजेश मैथिल वाली गली, वार्ड नं0 3, लाइन पार देहात, मोहल्ला—साहुकरा, पुरनपुर खास, तहसील— पुरनपुर, जिला—पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, 262122, एरिायाः 84.00 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्रीमती कमला	रू० 14,93,369.58 रू० 58,300.40 दि. 27.11.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
	पोस्ट—पुरनपुर, पुरनपुर देहात लाइन पार, पुरनपुर खास	दिवी के नाम, चौहददी वैल्युएशन रिपोर्ट के	03.12.2024
	(रूरल), पुरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, 262122,, पता— 2. राजेश मैथिल वाली गली, वार्ड नं0 3, लाइन पार देहात, मोहल्ला सहुकरा, पुरनपुर खास, तहसील—पुरनपुर, जिला—पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, 262122	15'—0" चौड़ा, उत्तर—मुकेश का मकान, दक्षिण— सुन्दर लाल का मकान	
	 अभिमन्यू श्रीवास्तव पुत्र श्री राजनन्दन श्रीवास्तव श्रीमती स्वर्ण चित्रा देवी पत्नी श्री अभिमन्यू श्रीवास्तव दोनों का पता—15 ए, विश्णुपुरम, बशारतपुर, गोरखपुर उ०प्र० 273004 	भूमि / सम्पत्ति मकान नं0 15 ए, गाटा नं0 874, स्थित मोहल्ला बशारतपुर खास, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, एरियाः 207.80 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्रीमती स्वर्ण चित्रा देवी के नाम, चौहद्दी—पूरब—रोड, पश्चिम—प्लॉट नं0 9, उत्तर—मकान शैल श्रीवास्तव, दक्षिण— रोड	रू० 49,707.48 दि. 27.11.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 02.12.2024
			25.02.2025
	 श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी श्री प्रमोद सिंह, पता—नवीन मण्डी के पास, निराला नगर, खोजनपुर, फैजाबाद, उ0प्र0 224001, 2. श्री प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वी सिंह, 3. श्रीमती तेजपती पत्नी स्व0 श्री पृथ्वी सिंह दोनो का पता—1. मैहर कबीरपुर, 	190 का मिन—जुमला भाग, मोहल्ला—पहाड़गंज, परगना—हवेली अवध, तहसील—सदर, जिला— फैजाबाद, उत्तरप्रदेश—224204, एरियाः 146.79	रू० 58,93,217.00 रू० 88,570.00 दि. 23.08.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
	पोस्ट–केरालाल खान, बिकापुर, फैजाबाद, बिकापुर,	प्रमोद कुमार सिंह के नाम, चौहद्दी वैल्यूएशन	23.08.2024
	उत्तर प्रदेश, 224204, दोनो का पता—2. खसरा नं0 190 का मिन—जुमला भाग, मोहल्ला—पहाड़गंज, परगना—हवेली अवध, तहसील—सदर, जिला—	रिपोर्ट के अनुसार-पूरब-मोहम्मद कलीम की भूमि, पश्चिम-अब्दुल कयूम एवं अन्य की भूमि, उत्तर-श्रीमती कला देवी का मकान, दक्षिण-	27.02.2025

ननाताल बक शाखा - एफसीए-54, आईडीबीआई बैंक के पास, 100 फीट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 1210 0 4, फोन नं. 0129-2216181, 9810 2687 46

नवीन मन्दिर की चारदीवारी

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऋणियों एवं जमानतियों द्वारा नैनीताल वैंक की एफसीए-54, आईडीबीआई बैंक के पास, 100 फीट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 1210 0 4 शाखा से लिया गया ऋण अनर्जक आस्ति हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिमृति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत बैंक द्वारा पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस बैंक शाखा में वापस आ गए हैं। यदि ऋणी/जमानतियों द्वारा बैंक की उपरोक्त अवशेष राशि का भुगतान 60 दिन के अन्दर बैंक को नहीं किया जाता है तो बैंक उक्त में उल्लिखित भूमि-भवन का कब्जा सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत लेने के लिए बाध्य होगा।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

फैजाबाद, उत्तरप्रदेश–224204

दिनांकः 01.03.2025

मुनेश माटी पत्नी रामवीर सिंह माटी (कर्जदार), निवासी प्लॉट नं. ए३, तीसरी व चौथी मंजिल, ब्लॉक बी, संक्टर 81, बीपीटीपी पार्कलंडस, ग्राम- बुढेना, तहसील व जिला- फरीदाबाद-121007 2. राहुल सिंह माटी पुत्र रामवीर सिंह भाटी (कर्जदार), निवासी प्लॉट नं. ए३, तीसरी व चौथी मंजिल, ब्लॉक बी, सेक्टर 81, बीपीटीपी पार्कलॅंड्स, ग्राम- बुढ़ेना, तहसील व जिला- फरीदाबाद- 1210 07 वीपक माटी पुत्र रामवीर सिंह माटी (कर्जदार), निवासी प्लॉट नं. ए3, तीसरी व चौथी मंजिल, ब्लॉक बी, सेक्टर 81, बीपीटीपी पार्कलॅंड्स, ग्राम- बुढ़ेना, तहसील व जिला- फरीदाबाद-121007 इंद्रजीत सिंह पुत्र रघुराज सिंह (जमानती), निवासी एमसीएफ 315, गली नं. 66 संजय कॉलोनी, सेक्टर 23, फरीदाबाद, सेक्टर 22, हरियाणा - 121005 5. धनी राम पुत्र राजा राम (जमानती), निवासी मकान नं. 226, शिव मंदिर के पास, ग्राम- न्यू भूपानी, सेक्टर 82 भोपानी (143), भरकोला

फरीदाबाद, हरियाणा - 121002 डिमान्ड नोटिस दिनांक 14.02.2025 को रु. 64,56,869.28 (रुपये चीसठ लाख छप्पन हजार आठ सौ जनहत्तर एवं पैसे अड्डाईस मात्र दिनांक 12.02.2025 तक) दिनांक 13.02.2025 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति (आवासीय भवन) के सभी भाग व हिस्से जो कि संपूर्ण तीसरी मंजिल का भाग (छत अधिकार के बिना), जिसका कवर्ड एरिया 1149.950 वर्ग फीट, संपूर्ण चौथी मंजिल (छत अधिकार के साथ), जिसका कवर्ड एरिया 1149.950 वर्ग फीट, प्लॉट सं. AI3, ब्लॉक बी, सेक्टर 81, बीपीटीपी पार्कलॅंड्स रेवेन्यू विलेज बुढेना, तहसील व जिला– फरीदाबाद– 1210 07 में स्थित है। सम्पत्ति मुनेश भाटी पत्नी रामवीर सिंह के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सीमायें (दिनांक 03.07.2023 की मूल्यांकन रिपोर्ट के के अनुसार) उत्तर- प्लॉट नं. A4, दक्षिण- प्लॉट नं. A2, पूरब में सर्विस लेन, पश्चिम में रोड, तथा निम्नलिखित सेल डीड के माध्यम से शामिल हैं :-

1. सम्पत्ति उप निबंधक (फरीदाबाद) के कार्यालय में सेल खीड, क्रमांक सं. 1996, बही स. 1, जिल्द सं. 2, पृष्ठ सं. 99 तथा अन्य प्रतिलिपि बही सं. 1, जिल्द सं. 59, पृष्ठ सं. 1 से 3, दिनांक 18.05.2023 को विधिवत पंजीकृत है।

2. सम्पत्ति उप निबंधक (फरीदाबाद) के कार्यालय में सेल डीड, क्रमांक सं. 1997, बही सं. 1, जिल्द सं. 2, पृष्ठ सं. 99.25 तथा अन्य प्रतिलिपि वही सं. 1, जिल्द सं. 59, पृष्ठ सं. 4 से 6, दिनांक 18.05.2023 को विधिवत पंजीकृत है।

ऋणी एवं जमानतियों को सुचित किया जाता है कि बैंक की एफसीए-54, आईडीबीआई बैंक के पास, 100 फीट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 121004 में स्वयं उपस्थित हो 13(2) के अन्तर्गत प्रेषित डिमाण्ड नोटिस प्राप्त कर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 60 दिन के मीतर अवशेष राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें। स्थान : बल्लभगढ, जिला-फरीदाबाद दिनांक : 01.03.2025 प्राधिकृत अधिकारी SOUTH Bank

शाखा का पता: डीओ. एनओ. डब्ल्यूजेड-116, मेट्रो पिलर नं. 486 के सामने, मीनाक्षी गार्डन, तिलक नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110018

शाखा का मेल आईडी: br0723@sib.co.in बैंक में गिरवी स्वर्णाभूषणों की नीलामी

जैसा कि, दि साउथ इंडियन बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने बिक्री सुचना जारी कर ऋणधारक को उनके द्वारा प्राप्त की गई गोल्ड ऋण में बकाये भुगतान करने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि का भगतान करने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा ''जैसा है जहाँ है आधार' एवं ''जैसा भी वहाँ है आधार'' एवं ''उपचार-रहित आधार'' पर स्वर्णाभूषणों की नीलामी संचालित की जायेगी। यह नीलामी 13.3.2025 को 12 बजे पूर्व से 3.00 बजे अप. तक ऋणधारक श्री तरुण चढ़ा, खाता संख्या 0723653000000227 के लिये https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से ऑन लाइन संचालित की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिये कृपया 6352632523 पर Auction Tiger से सम्पर्क करें

दि साउथ इंडियन बैंक लि.

सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L51909UP1933PLC146675)

पंजीकृत कार्यालयः ए–44 होजरी कॉम्प्लेक्स, फेज 2 एक्सटेंशन, नोएडा–201 305, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट कार्यालयः 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेंड टावर्स, प्लॉट नंबर 15-16, सेक्टर 16ए, नोएडा- 201 301, उत्तर प्रदेश

ईमेल: shares@ssel.trivenigroup.com; वेबसाइट: www.sirshadilal.com; फोन : 0120-4308000 डाक मतपत्र सूचना

कंपनी के सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई हो तो, समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पढ़ें ("नियम") सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल. 2020 और परिपन्न संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिषत्र संख्या 9 / 2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉर्योरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड के विनियमन ४४ (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और विनियमों (जिनमें इस समय लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुपालन में, सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी") ने 28 फरवरी, 2025 को साधारण संकल्प द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के साथ महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी, 2025 की तारीख वाले पोस्टल बैलट नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजना पूरा कर लिया है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेंड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं और जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 21 फरवरी, 2025 ("कट–ऑफ तिथि") तक कंपनी आस्टीए/डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध हैं। सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे।

कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई—बोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देंगे, उन्हें ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। कट-ऑफ तिथि के बाद सदस्य बनने वाले व्यक्ति को इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए

पोस्टल बैलट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.sirshadilal.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कुपया ध्यान दें कि कंपनी के सदस्यों को नोटिस या पोस्टल बैलट फॉर्म की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जाएंगी। रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने योट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अपनी सहमति (के लिए) असहमति (विरुद्ध) केवल रिमोट ई-बोटिंग प्रणाली के माध्यम से दर्ज करें।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश: रिमोट ई-वोटिंग 1 मार्च, 2025 को स्वह 9 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और 30 मार्च, 2025 को शाम 5 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके तुरंत बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि

शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, तो वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी और कंपनी रजिस्ट्रार अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड के साथ पंजीकत करें । जैसाकि पोस्टल बैलट नोटिस के नोटस में विस्तुत जानकारी दी गई है। जिन शेयरघारकों के ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए

उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रियाः यदि शेयर भौतिक मोड में हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र

- की स्केन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्केन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की रव-सत्यापित रकैन की गई प्रति) को ईमेल द्वार shares@ssel.trivenigroup.com पर प्रदान करें।
- यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया DPID+CLID (16-अंकीय DPID+CLID या 16—अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (रय-सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) के साथ shares@ssel.trivenigroup.com पर आवेदन करें
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक / सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई—वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ईमेल पतों को स्थायी रूप से पंजीकृत / अपबेट करने का तरीका इस प्रकार है:

 भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म ISR-1 को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी के RTA को मेसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, युनिट: सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अलंकित डाउस, 2E/21, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055 पर जमा करके अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें ।

2. डीमैटरिलाइज्ड शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं। उचित सत्यापन के बाद, NSDL (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर अग्रेषित करेगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य shares@ssel.trivenigroup.com पर लिख सकते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स सुरेश गुप्ता एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री सुरेश गुप्ता (सीपी सं. 5204, एम. सं. F 5660) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। पोस्टल बैलेट द्वारा आयोजित मतदान के परिणाम और स्कृटिनाइजर की रिपोर्ट की घोषणा कंपनी के अध्यक्ष या उनकी अन्परिधात में कंपनी संग्रिव द्वारा 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले की जाएगी। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.sirshadilal.com, स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com

और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्अल देखें, जो दोनों www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या www.evoting@nsdl.com पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे से संपर्क करें या 022-48867000 पर कॉल करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाक मतपत्र नोटिस में दी गई समी बातों को, विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढें।

> कते सर शादी लाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड हस्ता./-अजय कुमार जैन

कम्पनी सचिव

FCS-5826

विथि : 28 फरवरी, 2025 स्थान : नोएडा, यू,पी.

रिटेल एसेट्स सेंटर, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी–2, दूसरी मंजिल, 1–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन

कॉपोरेंट कार्यालय: 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडरंग बुधकर मार्ग, वोरी, मुंबई-400025

सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत कब्जा सुचना

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक्सिस बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं से कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि पर नीचे वर्णित सम्पत्ति पर **कब्जा** कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभृत आस्तियों को छड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार/जमानितयों/बंधककर्ताओं का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम

. **मैसर्स कोन्नेक्सियन्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड**, जिसका कार्यालय 2सरा तल, प्लॉट नंबर 87, पावर स्पोर्ट्ज, सेक्टर- 44, गुङ्गांव 122001 में इसके निदेशकों के माध्यम से। 2. श्रीमती कांथी दम्म विला नंबर 75, पाम रिप्रंग्स गोल्फ कोर्स रोड, साउथ प्वाइंट मॉल के सामने, सेक्टर -53, गुडगांव 122001 **3. श्री कार्तिक दम्मू** पुत्र सुरेश दम्मू विला नंबर 75, पाम स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स रोड, साउथ प्वाइंट मॉल के सामने, सेक्टर -53, गुड़गांव 122001, 4. श्री केशव दम्मू पुत्र सुरेश दम्मू विला नंबर 75, पाम स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स रोड, साउथ प्वाइंट मॉल के सामने, सेक्टर -53, गुड़गांव 122001

सम्पत्ति का विवरण	माग सूचना की तिथि	मातिक कब्ज की तिथि	माग सूचना म राशि (रु.)
आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, विला नंबर 12 प्लॉट नंबर 12 सर्वे नंबर	07 दिस. 2023	24-02-2025	₹.
102/पी में 296 वर्ग गज या 247.45 वर्ग मीटर में सुपर बिल्ट अप एरिया			2,20,66,357.30
3620 वर्ग फीट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर बाबूखान लेक फ्रंट लेआउट			(रुपये दो करोड़ बीस लाख छियासठ
कोकापेट गांव राजेंद्र नगर मंडल रंगा रेड्डी जिलाः केवी रंगा रेड्डी राज्यः तेलंगाना			बास लाख छियासठ हजार तीन सौ
इमारत के सामान्य क्षेत्रों का उपयोग करने के अधिकार के साथ, वाटर			सत्तावन एवं तीस
क्लॉजेट, ड्रेनेज, शौचालय और अन्य सुविधाओं और सुविधाओं का उपयोग			पैसे मात्र)
करने का अधिकार, फ्लैट / यूनिट / कार्यालय परिसर में या उससे संबंधित			
या उससे जुड़े हुए, वर्तमान और भावी दोनों और सुखाधिकार और सभी			
फिक्स्चर और फिटिंग के साथ, श्री कार्तिक दम्मू और श्री केशव दम्मू के नाम			
पर, निम्नानुसार सीमांकित : पूर्व - विलेख के अनुसार पश्चिम - विलेख के			
अनुसार दक्षिण - विलेख के अनुसार उत्तर - विलेख के अनुसार			
उपर्युक्त कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ताओं को एतद्वारा राशि चुका (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन			

तिथि : 24.02.2025 अधिकत पाधिकार्र एक्सिस बैंक लिमिटेड

www.readwhere.com

केनरा बैंक 🥁 Canara Bank क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादुन 🔳 सिंडिकेट Syndicate आमुषण नीलामी सुचना नीचे वर्णित स्वरूप बैंक के कर्जदारों के यहां बकाया राशि की वसुली के प्रयोजनार्थ, बैंक के पक्ष में संकल्पित स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलार्म के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। केनरा बैंक, संबंधित शाखा, देहरादून के परिसर में **दिनांक 15.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे जीलार्म** आयोजित की जायेगी। कर्जदार का नीलामी की तारीख प्राथमिकता सं0 समय और स्थान नाम व पता इच्छ्क व्यक्ति अधिक 180213435094 29.06.2024 श्री सल्तान 柄. 98456/-15.03.2025 南 गानकारी के लिए शाखा प्रातः 11.00 बजे सिंह बिष्ट भुद्ध वजन सि सम्पर्क कर सकता है केनरा बैंक, शाखा 27.02.2025 19.990 ग्राम श्री काल सिंह तोमर सेलाकई (18972) मो.नं. 7678631549 2. श्री कमल बजाज | 128001498155 | 07.01.2025 | स. 258065/- | 15.03.2025 को इच्छ्क व्यक्ति अधिक दिनांक प्रात: 11.00 बजे जानकारी के लिए शाखा शुद्ध वजन से सम्पर्क कर सकता है केनरा बैंक, शाखा 27.02.2025 पटेल नगर श्री अरूण तोमर (5315)मो.नं. 8909339244 18027577659 06.01.2025 表。31890.46/-इच्छ्क व्यक्ति अधिक श्री हरीओम 15.03.2025 को जानकारी के लिए शास्त्रा प्रातः 11.00 वजे दिनांक शुद्ध वजन से सम्पर्क कर सकता है केनरा वैक, शाखा 27.02.2025 श्री रचित सिघंल धर्मपुर मो.नं. 7830100499 (18518)

कब्जा सूचना

बैंक द्वारा निर्धारित बिक्री के नियम एवं शर्तों के अनुरूप नीलाम होगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति कृपया केनरा बैंक से बोली सम्बन्धित

आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें । भौतिक नीलामी बोली जमा करने के बाद होगी।

दिनांक: 28.02.2025

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड सीआईएन : U67100MH2007PLC174759

रिटेल केन्द्रीय कार्यालय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098.

जबिक, यहाँ उल्लिखित प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए निम्नलिखित के अनुसार धारा 13(2) के तहत माँग सूचना जारी की थी। इसके पश्चात, यहां उल्लिखित एसाइनर ने **एडलवाइस एसेट रीकंस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड** को वित्तीय आस्तियाँ साथ ही यहां नीचे उल्लिखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में स्वयं/क्षमता में कार्यरत (इसके पश्चात ''ईएआरसी'' कहा जायेगा) को समनुदेशित कर दीं। सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया और ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं) द्वारा ली गयी वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में समनुदेशक के प्रतिभृति हितों, गारंटियों, संकल्पों के समस्त अधिकार, स्वामित्व तथा हित ईएआरसी में निहित हो गये जो प्रतिभूत लेनदार के रूप में अपने समस्त अधिकारों का उपयोग करता है।

यह कि ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं) तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में ईएआरसी का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक ऋण खाते/बंधक सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित कराने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के विषय में ऋणकर्ताओं/जमानतियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन

उपर्युक्त राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।

क्र.	एसाइनर का	ट्रस्ट का	ऋण खाता	कर्जदार का नाम एवं सह-कर्जदार(रों)	मांग सूचना की	कब्जा करने	कब्जे की
सं.	नाम	ा नाम	संख्या	का नाम	तिथि तथा राशि	की तिथि	स्थिति
1.	इंडसइंड बैंक	EARC Trust SC 353		 मेसर्स दुर्गा ट्रैवल्स (कर्जदार) श्री पंकज शर्मा (सह-कर्जदार) और मेसर्स अजय ट्रैवल्स (सह-कर्जदार) श्रीमती उर्मिला शर्मा (सह-कर्जदार) श्री ओम प्रकाश शर्मा (सह-कर्जदार) 	रु. 1,84,79,279.43/- तथा 29.10.2020	25-02-2025	भौतिक कब्जा
अच	अचल संपत्ति का विवरण - बंधक संपत्ति का समस्त भाग आवासीय प्लॉट संख्या 21, ब्लॉक-एफ, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 180.00 वर्ग मीटर, साथ ही						

उस पर निर्मित संरचना है, कुल कवर्ड एरिया 257.45 वर्ग मीटर, सेक्टर 41, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर यू.पी. -201303 में स्थित है। संपत्ति की <mark>सीमाएं: पूर्व में:</mark> प्लॉट संख्या एफ-20; **पश्चिम में**: 9 मीटर चौड़ी सड़क; **उत्तर में**: 12 मीटर चौड़ी सड़क; **दक्षिण में**: प्लॉट संख्या एफ-22।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी,, एडलवाइस एसेट रीकंस्टक्शन कम्पनी लिमिटेड तिथि : 01.03.2025, स्थान : नोएडा

€ Edelweiss

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड SMFG

वसलीकरण की तिथि तक इन राशियों पर नियत भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों की वसूली हेतु किया जायेगा।

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) Grihashakti निगमित कार्यालय : 503 एवं 504, 5वां तल, जी-ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई – 400 051,

पंजीकृत कार्यालय : कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, सं. 111, माउंट पुनामल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई— 600 116, तमिलनाडु अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ 15 दिवसीय ई—नीलामी विक्रय सूचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत 🖊 प्रभारित निम्न सचीबद्ध अचल संपत्तियों (''प्रतिभत परिसंपत्तियों''), जिनका अधिग्रहण, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) (यहां इसमें इसके पश्चात् एसएमएचएफसी के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी ("प्रतिभूत ऋणदाता") द्वारा कर लिया गया है, उनका विक्रय यहां इसमें निम्नांकित तिथि एवं समय पर ''जैसी हैं जहां हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'' तथा ''वहां जो कुछ भी हैं'' आधार पर किया जायेगा, जो कि यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से एसएमएचएफसी प्रतिभूत ऋणदाता को देय, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशियों तथा

क्र. सं.	उधारकर्ता (ऑ) / गारंटर (रों) के नाम / एलएएन	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य : धरोहर राशि जमा :	ई—नीलामी की तिथि एवं समय	धराज जमा की तिथि
01.	लैन नं. 609139511377706 1. कालू धामा 2. पूनम धामा	अनिधकृत शांति कुंज, छतरपुर दिल्ली—30 पंजीकरण संख्या 39 — (ईएलडी) आवासीय मकान नंबर 2ए, दूसरी मंजिल शांति कुंज छतरपुर दिल्ली—30 खसरा नंबर 0/619/8/8 में स्थित सभी संपत्ति/भूमि का पार्सल केस आईडी : पीएम—उदय/ केस / 04102022105319 / 1 जीआईएस आईडी नं. ऑफ जियो कोऑर्डिनेशन फाइल डीडीए / जीआईएस / 26092022122142 / 364037 और माप 40.13 वर्ग मीटर, दूसरी मंजिल में इस प्रकार परिसीमित है : उत्तर :— अन्य की संपत्ति, पूर्व :— अन्य की संपत्ति, दक्षिण :— अन्य की संपत्ति, परिचम :— 10 फीट रोड।	চ. 14,50,000 ∕ −	17.03.2025 को मध्या. 11.00 से अप. 01.00 बजे तक	15.03.2025
02.	लैन नं. 609139211125879 और 609139511162007 1. विनोद नागर पुत्र बेगराज नागर 2. मगन देवी	"निर्मित फ्लैट नं. एस—1, द्वितीय तल पर, छत के अधिकारों के साथ, सामने दायें हाथ की ओर, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, "उक्त फ्लैट" संपत्ति सं. डी—972 का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर है, जो आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ (जीडीए योजना) गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है।"		17.03.2025 मध्या. 11.00 से अप. 01.00 बजे तक	15.03.2025

विक्रय के विस्तृत नियम तथा शर्ते निम्नानुसार हैं और विवरण, निम्नलिखित लिंक / वेबसाइट के पते पर हमारी / प्रतिभृत ऋणदाता की वेबसाइट (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी उपलब्ध कराए गये हैं। इच्छुक बोलीदातागण, आशीष कौशल से उनके मोबाइल नंबर 8527134222, ई—मेल : Ashish.Kaushal@grihashakti.com और श्री निलोय डे से उनके मोबाइल नंबर 9920697801, ई—मेल : Niloy.Dey@grihashakti.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

स्थान ः गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश / दिल्ली दिनाँक : 27-02-2025

ऋण खाता संख्या / ऋणी /सहऋणी /

प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

बंधक सम्पत्ति

एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल वेंक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A. धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381) सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयु रमाल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।'''वितीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गंडन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की 'धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह-ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी /ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्भिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सुचित किया जाता है कि निम्न सुची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आरितयों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी

खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सुचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते हैं ।

धारा 13(2) के अन्तर्गत

बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	नोटिस की दिनांक व राशि	का विवरण
(खाता सं.) L9001060713884802 लियाकत अली (ऋणी) , श्रीमती सलमा (सह-ऋणी)	13 जनवरी 2025 र 1672224/- रु. सोलह लाख बहत्तर हजार दो साँ चौबीस मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025	क्री होल्ड पर सम्पत्ति स्थित 647 वी 543 गाजियाबाद, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060719226530 जी के एण्ड जैम्स ज्वैलर्स (ऋणी) , लियाकत अली (सह-ऋणी), श्रीमती सलमा (सह-ऋणी)	13 जनवरी 2025 रै 1554635/- रु. पंद्रह लाख चौवन हजार छह सौ पैतीस मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025	फ्री होल्ड पर सम्पत्ति स्थित 659 गाजियाबाद, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट
(खाता सं.) L9001060817673181 जी के एण्ड जैम्स ज्वैलर्स (ऋणी) , लियाकत अली (सह-ऋणी), श्रीमती सलमा (सह-ऋणी)	13 जनवरी 2025 ₹ 848438/- रु. आठ लाख अडतालीस हजार चार सौ अड़तीस मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025	सम्पत्ति स्थित फ्रीहोल्ड बी 534 ए 647 मोहल्ला काजी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 83.61 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060117076591 अमित नागर (ऋणी), श्रीपाल नागर (सह-ऋणी), श्रीमती क्रांती देवी (सह-ऋणी)	10 जनवरी 2025 र 496931/- रु. चार लाख छह हजार नी सौ इक्तीस मात्र दिनांक 8 जनवरी 2025	सम्पत्ति रिथत चैक नं. ३१५, ग्राम अचेवा परगना, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश प्रदेश क्षेत्रफल 200 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060715302215 अतीक कुरेशी (ऋणी) , बाबू कुरेशी (सह-ऋणी), नदीम कुरेशी (सह-ऋणी), वसीम (सह-ऋणी)	13 जनवरी 2025 र 1224067/- रु. बारह लाख चौबीस हजार सड़सठ मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025	सम्पत्ति स्थित वार्ड नं. 18, सर्वे नं. खसरा नं. 773, नया नं. 1696, ब्लॉक नं. मेवातिया दादरी, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 104 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060122420354 प्र दीप कुमार (ऋणी) , श्रीमती शीला देवी (सह-ऋणी)	14 जनवरी 2025 र 741082/- रु. सात लाख इक्तालीस हजार क्यासी मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 1967, एसएन नं. 22/1, कृष्णा विहार, प्राम- बेहटाहाजिपुर परगना लोनी, जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 53 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060723247281 व L9001060830681082 पियरलीन सेल्स कॉर्पोरेशन (ऋणी), श्रीमती निर्मला (सह-ऋणी), नैन सिंह (सह-ऋणी)	14 जनवरी 2025 र 1082493/- रु. दस लाख बयासी हजार चार सी तिरानवे मात्र व र 770569/- रु. सात लाख सत्तर हजार पांच सी उनहत्तर मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं, 1376, 43 का प्लॉट, ग्राम- भटेया हाजीपुर, तहसील- लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 120 वर्ग गज
(खाता सं.) L9001060125372870	16 जनवरी 2025	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. ३५ ३६, का प्लॉट, अहमद

नगर नवादा, अलका जैन नर्सिंग होम, जिला-ई सर्विसेज (ऋणी), हरीश कुमार राय ₹ 980427/-(सह-ऋणी), गार्गी दास (सह-ऋणी) रु. नौ लाख अस्सी हजार चार सौ सत्ताईस मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 80 वर्ग गज 13 जनवरी 2025 सम्पत्ति स्थित मकान नं. सी-155 खसरा नं. 761 खाता स.) L9001060129301601 नहामाया सोलर ट्रेडिंग कंपनी (ऋणी), श्रीमती ₹ 2579752/-

बुदाना जनता कॉलोनी, जिला- गाजियाबाद, रु. पच्चीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 338 वर्ग गज मुनेश हरी सिंह (सह ऋणी), अंकित चौधरी बावन मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025 16 जनवरी 2025 (खाता सं.) L9001060136623304 ₹ 1537165/-

सम्पत्ति स्थित खाता नं. ३१० खसरा नं. ९४२, ग्राम खटाना धीरखेडा परगना, दादरी गौतम बुद्ध नगर, गौरव बंसल (ऋणी), छिददा सिंह (सह-ऋणी), रु. पंदह लाख सँतीस हजार एक सौ पँसठ जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश **क्षेत्रफल 280** श्रीमती प्रिया भाटी (सह-ऋणी) मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025

खाता सं.) L9001060828176170 13 जनवरी 2025 सम्पत्ति स्थित खेवट नं. ६८ खाता नं. ८४ एमयू नं. सुरेश यादव (ऋणी), श्रीमती बाला (सह-ऋणी) 51 किला नं. 8 7-8 13 1-7, मीजा नहरूगढ़ें ₹ 531521/-तहसील कोसली, जिला- रेवाड़ी, हरियाणा रु. पांच लाख इकतीस हजार पांच सी क्षेत्रफल 302.5 वर्ग गज इक्कीस मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025

13 जनवरी 2025 फ्री होल्ड पर सम्पत्ति स्थित मुनसीपल सीमा मेट्रो खाता सं.) L9001060123622555 व शहरी 68 84 रेवाडी कोसँली, जिला- रेवाडी, सुरेश यादव (ऋणी), श्रीमती वाला (सह-ऋणी) ₹ 971437/-हरियाणा क्षेत्रफल 100 वर्ग गज रु. नौ लाख इकहत्तर हजार चार सौ सैतीस मात्र दिनांक 10 जनवरी 2025 स्थान : दिल्ली दिनांक: 28-02-2025 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड